

# SHETH SHREE GIRDHARLAL AWARD : FOR SOCIAL SERVICE IN TRIBAL AREA



## दाहोद के डॉ. राहुल पड़वाल को सेठ गिरधरलाल पुरस्कार



डॉ. राहुल पड़वाल को मिला दाहोद में पुरस्कार।



### पुरस्कार संकायदाता/प्रभुगुजरा

भारत के दाहोद के नामी डॉक्टर राहुल पड़वाल को दाहोद अनाज महानन एंड एजुकेशन सोसाइटी ने पुरस्कृत किया है। 9 दिसंबर को स्थापना दिवस पर सेठ श्री गिरधरलाल पुरस्कार- 2022 दिया गया। साल 1992 से दाहोद अनाज महानन पब्लिक एजुकेशन सोसाइटी राह की शिक्षा, संस्कृति, कला और समाज सेवा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में मेधावी प्रतिभाओं को पुरस्कृत कर रही है। ऐसे लोग जो दूसरों को प्रेरक शक्ति के रूप में प्रेरित करते हैं। विपदा के समय कार्य करने वाले, रचनात्मक संगठन या इस क्षेत्र के व्यक्तित्व जिन्होंने राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विशेष स्थान प्राप्त किया है, उन्हें पुरस्कार दिया जाता है। डॉ. राहुल पड़वाल ने कक्षा 1 से 12 तक एजुकेशन सोसाइटी द्वारा संचालित स्कूलों में अध्ययन किया और तीन बार सर्वोन्मुखी प्रतिभा पुरस्कार प्राप्त किया। राहुल पड़वाल ने 10वीं कक्षा में जिले में टॉप तीन में स्थान बनाया था। बच्चों की हॉकी और बैडमिंटन में राज्य स्तर पर सम्मान हासिल किया था। अभी वे दाहोद शहर में जिले का पहला एनर्जीएच और आईएसओ प्रमाणित पड़वाल महिला अस्पताल स्थापित करके स्त्री रोग विशेषज्ञ के रूप में उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने दाहोद सरकारी अस्पताल में 6000 से अधिक स्त्री रोग संकेपी सर्जरी की। उन्होंने विभिन्न 120 सेमी ऊंचाई की महिला की सर्जरी कर राष्ट्रीय छात्रिता प्राप्त की। इसी तरह 42 साल की महिला के शरीर से बिना एक भी टांका लगाए 6.5 किलो का ट्यूमर निकालकर महिला को जीवनदान दिया। इसके अलावा भी कई बड़ी सर्जरी सफलतापूर्वक कर चुके हैं। कई रिकार्ड्स भी उनके नाम आ चुके हैं।